

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, रेलवे क्रॉसिंग संबंधी सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑपरेशन लाइफसेवर के साथ जुड़ रही है

ब्रैम्पटन, ओनटारियो (24 सितम्बर, 2021) – आज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने ऑपरेशन लाइफसेवर कैंनेडा (Operation Lifesaver Canada) और हब सर्फेस सिस्टम्स (HUB Surface Systems) के साथ साझेदारी में, *लुक/लिसन/लिव* कम्युनिटी सेफ्टी पार्टनरशिप प्रोग्राम (Look. Listen. Live. Community Safety Partnership Program) के हिस्से के तौर पर ब्रैम्पटन गो स्टेशन (Brampton GO Station) में नए रेलवे सुरक्षा डीकैल्स का उद्घाटन किया।

हर वर्ष, दर्जनों की संख्या में कैंनेडावासी रेलवे क्रॉसिंग्स में टक्करों में मारे जाते हैं या गंभीर रूप से जखमी हो जाते हैं। [ऑपरेशन लाइफसेवर \(Operation Lifesaver\)](#), उन स्थानों की पहचान करने के लिए म्युनिसिपल्टीज के साथ काम करता है, जहां रेल-सुरक्षा डीकैल्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं, ताकि लोगों को रेल-क्रॉसिंग के आसपास सावधान और जागरूक रहने के बारे में याद दिलाया जा सके।

डीकैल्स का लक्ष्य, पैदल चलने वालों, साइकिल चलाने वालों और ड्राइवरों को रेलवे क्रॉसिंग्स के आसपास सावधान रहने के बारे में अधिक जागरूक करके, दुखद क्रॉसिंग घटनाओं को रोकना है। ये डीकैल्स पगडंडी मार्किंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए थर्मोप्लास्टिक सामग्री के बने हैं।

ब्रैम्पटन की रोड ऑपरेशन्स (Road Operations) टीम, सिटी में रेल क्रॉसिंग्स पर आठ डीकैल्स इंस्टॉल करेगी, जिनमें शामिल हैं:

- मिल स्ट्रीट (Mill Street) और रेलरोड स्ट्रीट (Railroad Street) पर चार डीकैल्स; और
- जेम्स स्ट्रीट (James Street) और जॉन्स स्ट्रीट (Johns Street) पर चार डीकैल्स।

ऑपरेशन लाइफसेवर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, operationlifesaver.ca पर जाएं।

हवाले

“ब्रैम्पटन एक स्वस्थ और सुरक्षित शहर है। मुझे रेलवे क्रॉसिंग्स के आसपास सावधान रहने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए ऑपरेशन लाइफसेवर के साथ साझेदारी करने पर गर्व है। एक दुखद घटना भी बहुत ज्यादा मायने रखती है और मुझे उम्मीद है कि यह पहलकदमी और ये डीकैल्स, संपूर्ण कम्युनिटी के लिए जागरूकता बढ़ाएंगे।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ऑपरेशन लाइफसेवर के साथ साझेदारी का उद्देश्य, जनता को रेलवे क्रॉसिंग्स के आसपास के खतरों के बारे में अधिक जागरूक करना और ज़िंदगियों बचाने में मदद करना है। सभी ब्रैम्पटन निवासियों की सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यह ज़रूरी है कि हर कोई अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए अपने आसपास की स्थितियों के बारे में जागरूक हो।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, हमारे निवासियों और संपूर्ण कम्युनिटी के स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन लाइफसेवर के साथ यह साझेदारी, ब्रैम्पटन में सभी रेलवे क्रॉसिंग्स के आसपास पैदल चलने वालों, साइकिल और मोटर वाहन चलाने वालों की सुरक्षा में मदद करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“रेलवे क्रॉसिंग्स पर दुखद घटनाएं इस देश में आम हैं और प्रत्येक घटना, पीड़ित के परिवार और दोस्तों के साथ-साथ, रेलवे कर्मचारियों, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और व्यापक कम्युनिटीज को प्रभावित करती है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य, जनता को रेल क्रॉसिंग्स के आसपास के खतरों के बारे में अधिक जागरूक करना है और उम्मीद है कि यह ज़िंदगियां बचाएगा। हम चाहते हैं कि लोग धीरे चलें, दोनों दिशाओं में देखें, आने वाली ट्रेनों की आवाज़ सुनें और रेलवे के सभी चेतावनी चिन्हों और सिग्नल्स का पालन करें।”

- *सारा मेज (Sarah Mayes), नैशनल डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन लाइफसेवर कैनेडा*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

प्रभजोत कैथ (Prabhjot Kainth)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca

